

पद: परियोजना प्रबंधन विश्लेषक - निगरानी एवं मूल्यांकन अधिकारी	पद कोड: एफपीओ-01
<b>कुल पद : 01[एक]</b>	
<b>वेतनमान:</b> समेकित शुल्क अनुभव एवं योग्यता के आधार पर प्रति माह 60,000 रुपये से 2,10,000/- रुपये के बीच तय किया जाएगा।	
<b>कार्य विवरण :</b> परियोजना प्रबंधन विश्लेषक द्वारा विभिन्न परियोजनाओं हेतु योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और निगरानी करने में परियोजना प्रबंधन इकाई का सहयोग करने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उचित समय एवं सीमा में तथा प्राप्त बजट के भीतर पूर्ण हों। इस भूमिका में डेटा एकत्र करना एवं उसका विश्लेषण करना, रिपोर्ट बनाना तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करना आदि सम्मिलित है जो परियोजना के प्रदर्शन को अनुकूलित करने एवं समय पर कार्रवाई तथा पाठ्यक्रम सुधार हेतु सतर्कता बढ़ाने में सहायता करता है। प्रभावी मिशन वितरण की सुविधा हेतु विश्लेषक परियोजना प्रबंधकों एवं टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सहयोग करता है।	
<b>अवधि :</b> नियुक्ति 'सेवा हेतु अनुबंध' के अंतर्गत प्रारम्भ में तीन (03) वर्ष की अवधि अथवा परियोजना के साथ सह-समाप्ति अथवा जो भी पहले हो, हेतु होगी। परियोजना की वर्तमान अवधि जून'2024 तक है। अनुबंध का नवीनीकरण परियोजना के विस्तार या संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर सेवा जारी रखने की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।	
<b>मुख्य उत्तरदायित्व :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>डेटा विश्लेषण :</b> रुझानों, भिन्नताओं और विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु परियोजना डेटा एकत्र, विश्लेषण एवं व्याख्या करना। सटीक प्रोजेक्ट रिकॉर्ड और प्रदर्शन मेट्रिक्स बनाए रखने के लिए टूल एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग करना।</li> <li>■ <b>रिपोर्टिंग :</b> प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों, महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जोखिमों और मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए सभी हितधारकों हेतु नियमित स्थिति रिपोर्ट, डैशबोर्ड एवं प्रस्तुतियाँ तैयार करना।</li> <li>■ <b>संसाधन आवंटन :</b> संसाधन आवंटन एवं ट्रैकिंग में सहायता करना जिसमें शेड्यूल प्रबंधित करना, टीम बैठकों का समन्वय करना तथा परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।</li> <li>■ <b>जोखिम प्रबंधन :</b> परियोजना की जोखिमों की पहचान करना, उनके प्रभाव का आकलन करना एवं शमन रणनीति विकसित करने के लिए परियोजना प्रबंधकों और अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग करना। जोखिम शमन कार्यों की स्थिति की निगरानी करना और रिपोर्ट करना।</li> <li>■ <b>बजट ट्रैकिंग:</b> परियोजना के बजट की निगरानी, खर्चों पर ध्यान रखना तथा लागत नियंत्रण सुनिश्चित करने में सहायता करना। बजट भिन्नताओं पर रिपोर्ट करना और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाइयों की अनुशंसा करना।</li> <li>■ <b>दस्तावेजीकरण :</b> प्रोजेक्ट योजनाओं, शेड्यूल, बैठक के कार्यवृत्त एवं अन्य प्रासंगिक सामग्रियों सहित परियोजना का दस्तावेजीकरण करना। यह सुनिश्चित करना कि दस्तावेज व्यवस्थित, संस्करण-नियंत्रित और आसानी से पहुंच के योग्य हैं।</li> </ul>	<b>योग्यता :</b> <p>अनिवार्य योग्यता : स्नातक (वरीयता : जैव प्रौद्योगिकी) के साथ व्यवसाय प्रशासन, परियोजना प्रबंधन या संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर।</p> <p><b>वांछनीय योग्यता :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ डेटा को प्रभावी ढंग से इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और प्रस्तुत करने की क्षमता के साथ सुदृढ़ विश्लेषणात्मक कौशल।</li> <li>■ प्रोजेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर तथा टूल्स (जैसे, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ट्रेलो, जीरा) में प्रवीणता।</li> <li>■ उत्कृष्ट मौखिक एवं लिखित संचार तथा पारस्परिक कौशल।</li> <li>■ मजबूत संगठनात्मक कौशल के साथ विस्तार-उन्मुखता।</li> <li>■ स्वतंत्र रूप से तथा एक टीम के हिस्से के रूप में काम करने की क्षमता।</li> <li>■ परियोजना प्रबंधन सिद्धांतों और कार्यप्रणाली (जैसे, एजाइल, वॉटरफॉल) या पीएमआई प्रमाणीकरण का ज्ञान बेहतर है।</li> </ul> <p><b>अनुभव:</b> परियोजना प्रबंधन या परियोजना समन्वयक के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>आयु सीमा -</b> आवेदन की अंतिम तिथि पर अधिकतम 30 वर्ष।</p>

<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>संचार</b> : परियोजना टीम के भीतर एवं हितधारकों के साथ प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करना। बैठकों का समन्वय करना, बैठक के उद्देश्य वितरित करना और बैठक के कार्यवृत्त को प्रग्रहण करना।</li><li>■ <b>समस्या समाधान</b> : परियोजना के मुद्दों को पहचानना एवं परियोजना प्रबंधक को सूचित करना, अनुशंसित समाधान प्रदान करना एवं समस्या समाधान में सहायता करना।</li><li>■ <b>निरंतर सुधार</b> : सक्रिय रूप से प्रक्रिया में सुधार के अवसरों की तलाश करना तथा परियोजना प्रबंधन टीम के भीतर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।</li><li>■ सभी अनुदान प्राप्तकर्ताओं हेतु ईएचएसएस अनुपालन की निगरानी करना।</li></ul>	
--	--